

## \*#shahjahanpurpol\*

### \*प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 21.06.2021\*

\*बण्डा पुलिस ने बच्ची की पढाई के लिये दी आर्थिक सहायता तथा निर्बाध पढाई हेतु निशुल्क शिक्षा का कराया प्रबंध, बच्ची ने कहा थैंक्यू।\*

कस्बा बण्डा के खुटार रोड पर बुआ सिंह कालोनी निवासी राजाराम का 8 वर्ष पूर्व बीमारी की वजह से निधन हो गया था। उनकी पत्नी रूपा देवी ने आशा बहु बनकर परिवार की जिम्मेदारी सम्भाली और अपनी तीन पुत्रियों का विवाह किया जबकि छोटी पुत्री रिया कक्षा 06 में पढ रही थी। लॉकडाऊन के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड जाने के कारण रिया को पढाई छोडनी पड़ी। बच्ची रिया ने समाज सेवको से मिलकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की परन्तु उसे सहयोग न मिल सका।

कही से सहयोग नही मिलने पर निराश होकर दिनांक 20.06.2021 की शाम को रिया अपनी माता रूपा देवी के साथ थाना बण्डा पर आयी और प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार से अपनी पढाई के लिये सहयोग करने की प्रार्थना की। जिस पर प्रभारी निरीक्षक बण्डा श्री मनोज कुमार ने कस्बा बण्डा के स्कूल प्रबंधक को थाने बुलाया और रिया को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करायी गयी तथा रिया को कॉपी-किताबे आदि खरीदने हेतु 05 हजार रुपये नकद धनराशि देकर आर्थिक सहायता भी प्रदान की तथा भविष्य में भी समय समय पर शिक्षा के लिये सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बच्ची की खुशी देखते ही बन रही थी तथा पुलिस को थैंक्यू बोला।

थाना बण्डा पुलिस ने एक गरीब बच्ची को आर्थिक सहायता देकर उसकी शिक्षा हेतु प्रबंध किया। थाना बण्डा पुलिस ने बच्ची को अच्छी शिक्षा के लिये भविष्य में भी आर्थिक साहयता प्रदान करने का आश्वासन देते हुए बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

\*सहयोग करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- 1- श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक मय समस्त पुलिस बल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर